

## प्रेस नोट दिनांक- 14-01-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर द्वारा जनता में भय एवं आतंक फैलाकर गुण्डागर्दी करने वाले अभियुक्त (1) दीपक पुत्र सजीत सिंह निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर (2) सुशील पाठक पुत्र शिवशरण पाठक निवासी बाल्मीकि नगर कस्बा व थाना मानिकपुर (3) प्रमोद उर्फ बुइया पुत्र बड़कू कोल निवासी नागर (4) संदीप उर्फ फल्ली पुत्र झाली निवासी नागर थाना मानिकपुर (5) हसमुख उर्फ करिया पुत्र गोरेलाल निवासी नागर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 110 g की कार्यवाही की गयी।

(2). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 14.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम भेड़ा मार्कण्डेय आश्रम में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ परानु बाबा मंदिर के पास भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 06/21 धारा 307/147/427/336/323/504/506 में वांछित अभियुक्त पंकज उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र सत्यनारायण निवासी ऊंचाडीह थाना मानिकपुर चित्रकूट को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय दो जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.01.2021 को ग्राम ऊंचाडीह में देवर भाभी के विवाद में मारपीट कर तमंचे से फायर किया गया था। तमंचा कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 07./21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

1. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
2. दो जिंदा कारतूस 315

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार
3. आरक्षी विपिन कुमार